



PTC India

Date: 4th January, 2025

**Listing Deptt. / Deptt. of Corporate Relations,
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai
Fax- 022-22722037/ 39/41/61/3121/22723719
Scrip Code: 532524**

**Listing Deptt.
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, C-1, Block G
Bandra – Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai -51
Fax-022-26598237/ 38 - 022-26598347/ 48
Company Code: PTC**

Sub: Newspaper advertisement confirming dispatch of Notice of Postal Ballot.

Ref: Regulation 30 and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

In continuation to our letter dated 03rd January, 2025 with regard to the Postal Ballot Notice, please find enclosed copies of newspaper advertisement confirming dispatch of Postal Ballot Notice published in Business Standard (English & Hindi) both on January 04, 2025.

This will also be hosted on the company's website at www.ptcindia.com.

This is for your information and records.

Thanking You,

For PTC India Limited

**Rajiv Maheshwari
(Company Secretary)
FCS- 4998**

Enclosures:

- Copy of Advertisement in Business Standard Delhi (in English)
- Copy of Advertisement in Business Standard Delhi (in Hindi)
- Copy of Advertisement in Business Standard Mumbai (in English)
- Copy of Advertisement in Business Standard Mumbai (in Hindi)

PTC India Limited

(Formerly known as Power Trading Corporation of India Limited)

CIN : L40105DL1999PLC099328

2nd Floor, NBCC Tower, 15 Bhikaji Cama Place New Delhi - 110 066 Tel: 011- 41659500.41595100, 46484200, Fax: 011-41659144
E-mail: info@ptcindia.com Website: www.ptcindia.com,

AFTER SINDHU, WHO?

Women's badminton faces uncertainty due to a shrinking talent pool, lack of quality coaches, and overreliance on Gopichand



PHOTO: SHUTTERSTOCK



P Gopichand (centre) was instrumental in turning PV Sindhu (left) and Saina Nehwal into world champions

PHOTO: PTI

the country. "Our system of coaching has to develop," he told Sportskeeda. "We don't have any system for grooming top players and putting them into coaching. So, as a coaching system, we are a failed team, for sure." He however qualified the statement by saying he was trying to be a little harsh there. "But the fact of the matter is that after Gopi Sir, where are the coaches? Who are the coaches? Why haven't we developed a system? Why are you expecting another coach to be as passionate as Gopi Sir? I am, I know. But one person... the numbers we have in India... one is not enough," he added. In China and Indonesia,

top players turn into coaches and pass on their knowledge and expertise to future generations. In India, barring Gopi, Padukone, Vimal, and now Kashyap, few international players take to coaching. "We magically want to produce champions with medals around their necks. I have been a national coach for 16 years, and have got little support," Nita explained. "Indians have this fascination for foreign coaches. They will bring them from abroad and pay lakhs, but will continue to ignore our local coaches." Last month, the BAI made a slew of changes in training methods as India prepares for the 2028 Los Angeles

Olympics. To optimise the performance of players and create a more unified and systematic approach to training, the BAI wants to reduce the culture of personal coaches and shift towards a more centralised training model. The move came in the wake of BAI appointing Malaysian doubles specialist Tan Kim Her to work with the Indian national team. Nevertheless, expect more parents to make hopeful journeys with their daughters to Gopi Sir's academy in the coming year. After all, Gopichand knows a thing or two about the hard work, systematic development, and infra that go into the making of world beaters.

VISHAL MEMOR
New Delhi, 3 January

Over the past two decades, thousands of parents have embarked on a journey of hope with their daughters. They navigate through the obdurate traffic in Hyderabad's Gachibowli area, snake past the towering tech hubs in Cyberabad, and finally arrive at the Pulela Gopichand Badminton Academy.

This bustling state-of-the-art centre built by Pulela Gopichand, the soft-spoken bona fide Dronacharya of Indian badminton, also fondly known as Gopi sir, is a beacon of aspiration for these parents. This hallowed turf has witnessed the metamorphosis of Saina Nehwal, Jwala Gutta, Ashwini Ponappa, and P V Sindhu from anonymous aspirants into world champions.

At Gopi's academy, the dreams and potential of these young girls take flight. This is where the 2001 All England Open Champion has been moulding dreams and giving Indian badminton a steady stream of world-class shuttlers. But, for the first time last year, this supply line of Indian badminton — which has hitherto meticulously engineered champions — is facing a glitch. This disruption is especially glaring among women shuttlers, whose performances and development have faltered in a way that has raised concerns.

Barren cabinet

P V Sindhu, Indian women's badminton's superstar, endured a lacklustre 2024. The 29-year-old lost to Canada's Michelle Li in the first round of the Arctic Open 2024 BWF Super 500 at Vantaa, Finland. At the Paris Olympics in August, she endured her biggest heartbreak of the year when she went down in straight games to China's He Bing Jiao in the pre-quarterfinals.

Nehwal, at 34, has conceded that her career is on its last legs. The 2012 Olympic bronze medalist has been out of mainstream badminton for some time, battling arthritis. "The knee is not very good. I have arthritis. My cartilage has gone to a bad state. It is very difficult to push for eight-nine hours," Nehwal said on the House of Glory podcast.

The cabinet in the Indian women shuttlers looks barren.

Who is the next Sindhu or Saina?

It is a question that baffles Gopi. There are stars on the horizon, but they appear to be flickering only intermittently. Among them is 23-year-old Malvika Bansod, whose intelligence, nous, and power have heads turning. She was part of the Indian team that

THE 'NEXT' TAG

Malvika Bansod

The 23-year-old has defeated Sania Nehwal in 2022 and stunned Gregoria Mariska Tunjung in the previous year. The Nagpur girl created buzz after winning the silver medal at the Syed Modi international tournament three seasons ago



Aakarshi Kashyap



The Bhilai girl won plaudits for her power game. She was selected to be part of the Indian team at the 2018 Asian Games, and then rose through the ranks with her impressive performances in the BWF World Championships and Asian Games

Tanvi Patri

Tanvi was introduced to badminton by her father who was working in Shanghai. She was tutored by China's renowned coach Jiang Yong Yi. The early brush with the Chinese played a significant role in shaping her fortunes



won the 2022 Thomas & Uber Cup bronze medal, and her performances at tournaments such as the Spanish Open and Singapore Open show she can compete against top players.

Complementing Bansod is Aakarshi Kashyap, who has made a steady rise through the ranks through her performances in the BWF World Championships and Asian Games.

Their talent is evident. But what is missing is the consistency and fitness of Nehwal and Sindhu during their formative years. The world rankings only illustrate the growing cause for concern. As of 31 December 2024, there are only two Indian women shuttlers in the world's top 40: Sindhu (15) and Bansod (32). Japan has eight on this list.

Finding next Saina, Sindhu

Finding India's next Sindhu or Nehwal seems to be an arduous task, far more rigorous than finding the next Indian Idol. And the next

does not lie with Gopi, Prakash Padukone, or Vimal Kumar.

"For a long time, Indian badminton was centred around Hyderabad and Bengaluru. A talented player from the North-East had little avenues for training. Her parents would be hesitant to send her to Gopi's academy in Hyderabad or Padukone's centre in Bengaluru," a senior sports administrator told Business Standard.

Last year, the Badminton Association of India (BAI) set up an academy in Guwahati that gave hope to young shuttlers who did not want to

leave their homes to train in Bengaluru and Hyderabad. But that's just the start. There is a long way to go to match the aura of Gopi's nursery.

Veteran coach Vijaydeep Singh Nita believes a turnaround in women's badminton is around the corner. "These young girls will need some time to improve their game and inject consistency to close out crucial games," he explains.

More importantly, having national camps across the country, and not just in academies run by Gopi or Padukone, will provide an endless supply of talent. Nita concedes that the best way to plug the gap in women's badminton is by identifying at least 10 players, hone their skills, condition them mentally, and unleash them at major tournaments.

The future of women's badminton does not lie in unearthing the next Sindhu, but in creating a pool of talent. By building a squad, India's chance of medals increases exponentially. This is a sure-shot way to compete against the sport's superpowers: China, Denmark, Indonesia, and Japan.

Gaps in coaching

Though India has witnessed an impressive rise in badminton over the past two decades with the resounding success of Saina, Sindhu, Kidambi Srikanth, Lakshya Sen, and others, the future also lies in unearthing more Gopis and Padukones.

Parupalli Kashyap, the 2014 Commonwealth Games gold medal winner, who has turned to coaching, bemoans the lack of quality coaches in

50 years of market wisdom, not market whispers.

50 Years of Insight

बैंक ऑफ इंडिया Bank of India BOI

Head Office : Star House, Plot C-5, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051.

Sale Notice
Advertisement in respect of Transfer of Loan Exposure

Bank of India invites Expression of Interest ("EOI") from eligible ARCs/Bank/NBFCs/all India Financial Institutions ("Eligible Participants") in terms of extant guidelines of the Reserve Bank of India ("RBI") on Transfer of Loan Exposures in Simbhaoli Sugars Ltd and group, subject to applicable regulations issued by RBI/regulators for transfer of Stressed Loan Exposures through e-auction under Swiss Challenge Method on "As is Where is, As is What is and Whatever there is basis" and "without recourse basis".

The prospective investors (who are eligible) are requested to visit our website www.bankofindia.co.in under section Expression of Interest column for further details and terms & conditions.

Dated : 04.01.2025 Place: Mumbai

PTC India Limited
CIN: L40105DL1999PLC099328
Regd. Office: 2nd Floor, NBCC Tower, 15 Bhikaji Cama Place, New Delhi - 110 066
Website: Tel: 011- 41659500, 41595100, 46484200. Fax: 011-41659144
E-mail: info@ptcindia.com Website: www.ptcindia.com

NOTICE OF POSTAL BALLOT

Members are hereby informed that pursuant to the provisions of Section 108 and 110 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with the Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (cumulatively "Act"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), Secretarial Standard-2 issued by Institute of Company Secretaries of India and other applicable laws and regulations, if any, including any statutory modification (s), re-enactment (s) thereof, for the time being in force, PTC India Limited (the "Company") is seeking approval from its Members for passing of Resolution as set out in the Postal Ballot Notice dated 03rd January, 2025 ("Postal Ballot Notice") by way of electronic voting ("e-voting"/remote e-voting) only.

In terms of relevant provisions of the Act and in accordance with the guidelines issued by the Ministry of Corporate Affairs, inter-alia, for conducting Postal Ballot through e-voting vide General Circular No. 14/2020 (dated 8th April 2020) and latest being Circular No. 9/2024 dated 19th September, 2024 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and circular No. SEBI/HO/CFD/CFO-POD-2/PICIR/2024/133 dated 03rd October, 2024 issued by Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), the process of sending Postal Ballot Notice along with the instructions regarding remote e-voting through email to all those Members, whose email addresses is registered with the Company or with the Depositories/Depository Participants or Registrar and Share Transfer Agent of the Company ("RTA") and whose names appear in the Register of Members/ list of Beneficial Owners as on Monday, 30th December, 2024 ("Cut-Off Date"), has completed on 03rd January, 2025.

In compliance with the requirements of the MCA Circulars, physical copy of Postal Ballot Notice along with Postal Ballot Forms and pre-paid business envelope will not be sent to the Members for this Postal Ballot and Members are required to communicate their assent or dissent through remote e-voting systems only. The Company has engaged National Securities Depository Limited ("NSDL") as e-voting agency for the purpose of providing remote e-voting services.

All the members are hereby informed that:

- The remote e-voting period commences on Saturday, 04th January, 2025 (09:00 A.M. IST) and will end on Sunday, 02nd February, 2025 (05:00 P.M. IST) for all the members, whether holding shares in physical form or in demat form. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Remote e-voting shall not be allowed beyond the said time and date. Vote once casted cannot be changed subsequently.
- A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by depositories as on Cut-Off date i.e. Monday, 30th December, 2024, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting.
- Shri Ashish Kapoor, Practising Company Secretary (Membership No. F8002, CP No. 7504) has been appointed as Scrutinizer by the Company to scrutinize the remote e-voting in a fair and transparent manner in accordance with the applicable provisions of the Act & Rules.
- The results of the Postal Ballot/ e-voting will be declared within a period of 2 (two) working days from the conclusion of remote e-voting by the Chairman or any other person authorized by him in that behalf and displayed at the registered office of the Company. The results along with Scrutinizer's report shall be placed on the website of the Company and simultaneously be communicated to the Stock Exchanges and NSDL.

Members are requested to register their email IDs permanently by following procedure as mentioned below:

- Members holding shares in physical mode and who have not registered/ updated their e-mail ID with the Company Registrar are requested to register/update their email ID with MCS Share Transfer Agent Limited by sending duly signed request Form ISR-1/ letter at cs@ptcindia.com with relevant details, folio number and attaching a self-attested copy of PAN card.
- Members holding shares in dematerialized mode are requested to register/update their e-mail ID with the relevant Depository Participant.

For further details, kindly refer to the notice of Postal Ballot, the notice is also available on Company's website (www.ptcindia.com), Stock Exchanges' websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com. Any member seeking electronic copy of this notice may write to us at cs@ptcindia.com. Further details including detailed instructions for voting are provided in the notice of postal ballot available on the website of the Company.

In case of any queries/issues related to e-voting facility, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members available at the download section of www.evoting.nsdl.com or contact Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, National Securities Depository Limited, 4th Floor, A Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel Mumbai-400013, India or at 022-4886 7000/ evoting@nsdl.com.

By Order of the Board of Directors
For PTC India Limited
sd/-
(Rajiv Maheshwari)
Company Secretary
M.No. FCS4998

Date: 03rd January, 2025
Place: New Delhi

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL BENCH AT NEW DELHI CA (CAA) No. 103 OF 2024

IN THE MATTER OF:
Sections 230 to 232 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016.

AND

IN THE MATTER OF:
Composite Scheme of Arrangement Amongst Lily Commercial Private Limited, DCM Shriram Industries Limited, DCM Shriram Fine Chemicals Limited and DCM Shriram International Limited and their respective shareholders and creditors.

IN THE MATTER OF:
DCM SHRIRAM INDUSTRIES LIMITED, (CIN: L74899DL1989PLC035140), (PAN: AAACD0204C), A public limited company incorporated under the Companies Act, 1956 having its registered office at Kanchenjunga Building 18, Barakhamba Road, New Delhi - 110001, India. ...Transferee Company/ DCMISR

NOTICE AND ADVERTISEMENT OF NOTICE OF THE MEETING OF THE EQUITY SHAREHOLDERS OF DCM SHRIRAM INDUSTRIES LIMITED AS PER DIRECTIONS OF THE HON'BLE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL, NEW DELHI BENCH.

Notice is hereby given that in terms of the orders dated 6th December, 2024 and 18th December, 2024, the Hon'ble National Company Law Tribunal, Bench at New Delhi ("NCLT"), ("Orders") has directed meeting to be held of the Equity Shareholders of DCMISR for the purpose of considering and if thought fit, approving with or without modification(s), the arrangement embodied in the Composite Scheme of Arrangement amongst Lily Commercial Private Limited ("Transferor Company"), DCMISR, DCM Shriram Fine Chemicals Limited ("Resultant Company 1") and DCM Shriram International Limited ("Resultant Company 2") and their respective Shareholders and Creditors ("Scheme") under Sections 230 to 232 of the Companies Act, 2013 ("2013 Act") and other applicable provisions of the 2013 Act read with Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016 ("2016 Rules").

In pursuance of the said Orders and as directed therein and in accordance with the applicable provisions of the 2013 Act, notice is hereby given that meeting of the Equity Shareholders of DCMISR will be held as under, at which, the Equity Shareholders are requested to attend.

Sr. No.	Class of Meeting	Day and Date of Meeting	Time (IST)	Mode
1.	Equity Shareholders	Saturday, 8 th February, 2025	11:00 AM	Through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means ("OAVM")

DCMISR has on 3rd January, 2025 completed the dispatch of Notice of Meeting, copy of the Scheme, Explanatory Statement under Sections 230, 232 and Section 102 of the 2013 Act read with Rule 6 of the 2016 Rules and accompanying documents (collectively referred to as the "Particulars") to all the Equity Shareholders whose names appear in the Register of Members / List of Beneficial Owners as on 30th September, 2024. The Particulars were sent to the Equity Shareholders through courier (to those equity shareholders whose e-mail IDs are not registered with the Transferee Company) and by electronic mode by e-mail (to those equity shareholders whose e-mail IDs are registered with the Transferee Company/Depository Participants). The Particulars can be obtained free of charge (except Saturdays, Sundays and public holidays) on a requisition being so made for the same by the Equity Shareholders of DCMISR at the Registered Office of DCMISR or by sending a request along with details of shareholding by email at dsil@dcmsr.com. The Particulars including the e-voting instructions are available on DCMISR's website at <https://dcmsr.com/scheme-of-arrangement-2023/> and on the website of KFin Technologies Limited ("KFinTech") at www.kfintech.com.

NCLT has appointed Ms. Rashmi Chopra, Senior Advocate, as Chairperson of the said meeting and in her absence Ms. Devira Gupta Roy, Advocate as Chairperson, of the said meeting of the Equity Shareholders of DCMISR.

The Scheme, if approved in the aforesaid meeting, will be subject to the subsequent approval of the NCLT.

Further Notice is hereby given to the Equity Shareholders of DCMISR that:

- DCMISR has provided the facility of remote e-voting so as to enable the Equity Shareholders to consider and approve the Scheme. DCMISR has also provided the facility of electronic voting system at the meeting. DCMISR has engaged the services of KFinTech for facilitating remote e-voting services and e-voting at the meeting.
- In accordance with the provisions of Sections 230-232 of the 2013 Act, the Scheme shall be acted upon if a majority of persons representing three fourth in value of the Equity Shareholders of DCMISR, voting, agree to the Scheme. The Scheme is conditional upon the Scheme being approved by the public shareholders of DCMISR through e-voting in terms of Part - I (A)(10)(a) of SEBI Master Circular No. SEBI/HO/CFD/POD-2/PICIR/2023/93 dated 20th June, 2023, and the Scheme shall be acted upon only if votes cast by the public shareholders of DCMISR in favour of the proposal are more than the number of votes cast by the public shareholders (of DCMISR) against it.
- The cut-off date for determining the eligibility of the Equity Shareholders for voting is 1st February, 2025. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled for voting. Persons who are not Equity Shareholders of DCMISR as on the cut-off date should treat this Notice for information purposes only.
- Voting through remote e-voting by the Equity Shareholders will commence on 5th February, 2025 at 9:00 AM (IST) and shall end on 7th February, 2025 at 5:00 PM (IST).
- The Equity Shareholders can opt for only one mode for voting i.e., either by remote e-voting or e-voting at the meeting. Equity shareholders who have cast their votes through remote e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.
- Ms. Manmeet Kaur Sareen, Advocate has been appointed as the Scrutinizer to conduct the remote e-voting process and the e-voting at the meeting in a fair and transparent manner.
- In case of any query/grievance in relation to the voting by remote e-voting or e-voting, the same may be addressed to Mr. G S Nair, Sr. Vice President of DCMISR at Kanchenjunga Building 18, Barakhamba Road, New Delhi-110001 or through email at dsil@dcmsr.com or to KFinTech at enw@kfintech.com or call on 011-43745000 or 1800 309 4001 respectively.
- The results, together with the Scrutinizer's Report, will be announced within two working days from the conclusion of meeting and will be placed on the website of DCMISR at <https://dcmsr.com/scheme-of-arrangement-2023/> and on the website of KFinTech at www.kfintech.com and shall be communicated to BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited where the shares of DCMISR are listed.
- If so desired, the Equity Shareholder may obtain a physical copy of the Notice, Scheme and the Statement under Sections 230 and 232 read with Section 102 and other applicable provisions of the 2013 Act and Rule 6 of the 2016 Rules etc. free of charge. A written request in this regard along with details of your shareholding in DCMISR, may be addressed to the Company Secretary at dsil@dcmsr.com.

sd/-
Rashmi Chopra
Chairperson appointed for the Meeting

Place: New Delhi
Date: 3rd January, 2025

DCM SHRIRAM

AFTER SINDHU, WHO?

Women's badminton faces uncertainty due to a shrinking talent pool, lack of quality coaches, and overreliance on Gopichand



PHOTO: SHUTTERSTOCK



P Gopichand (centre) was instrumental in turning PV Sindhu (left) and Saina Nehwal into world champions

PHOTO: PFI

the country. "Our system of coaching has to develop," he told Sportskeeda. "We don't have any system for grooming top players and putting them into coaching. So, as a coaching system, we are a failed team, for sure." He however qualified the statement by saying he was trying to be a little harsh there. "But the fact of the matter is that after Gopi Sir, where are the coaches? Who are the coaches? Why haven't we developed a system? Why are you expecting another coach to be as passionate as Gopi Sir? I am, I know. But one person... the numbers we have in India... one is not enough," he added. In China and Indonesia,

top players turn into coaches and pass on their knowledge and expertise to future generations. In India, barring Gopi, Padukone, Vimal, and now Kashyap, few international players take to coaching. "We magically want to produce champions with medals around their necks. I have been a national coach for 16 years, and have got little support," Nita explained. "Indians have this fascination for foreign coaches. They will bring them from abroad and pay lakhs, but will continue to ignore our local coaches." Last month, the BAI made a slew of changes in training methods as India prepares for the 2028 Los Angeles

Olympics. To optimise the performance of players and create a more unified and systematic approach to training, the BAI wants to reduce the culture of personal coaches and shift towards a more centralised training model. The move came in the wake of BAI appointing Malaysian doubles specialist Tan Kim Her to work with the Indian national team. Nevertheless, expect more parents to make hopeful journeys with their daughters to Gopi Sir's academy in the coming year. After all, Gopichand knows a thing or two about the hard work, systematic development, and infra that go into the making of world beaters.

VISHAL MENON
New Delhi, 3 January

Over the past two decades, thousands of parents have embarked on a journey of hope with their daughters. They navigate through the obdurate traffic in Hyderabad's Gachibowli area, snake past the towering tech hubs in Cyberabad, and finally arrive at the Pulela Gopichand Badminton Academy.

This bustling state-of-the-art centre built by Pulela Gopichand, the soft-spoken bona fide Dronacharya of Indian badminton, also fondly known as Gopi sir, is a beacon of aspiration for these parents. This hallowed turf has witnessed the metamorphosis of Saina Nehwal, Jwala Gutta, Ashwini Ponappa, and P V Sindhu from anonymous aspirants into world champions.

At Gopi's academy, the dreams and potential of these young girls take flight. This is where the 2001 All England Open Champion has been moulding dreams and giving Indian badminton a steady stream of world-class shuttlers. But, for the first time last year, this supply line of Indian badminton — which has hitherto meticulously engineered champions — is facing a glitch. This disruption is especially glaring among women shuttlers, whose performances and development have faltered in a way that has raised concerns.

Barren cabinet
P V Sindhu, Indian women's badminton's superstar, endured a lacklustre 2024. The 29-year-old lost to Canada's Michelle Li in the first round of the Arctic Open 2024 BWF Super 500 at Vantaa, Finland. At the Paris Olympics in August, she endured her biggest heartbreak of the year when she went down in straight games to China's He Bingjiao in the pre-quarterfinals.

Nehwal, at 34, has conceded that her career is on its last legs. The 2012 Olympic bronze medalist has been out of mainstream badminton for some time, battling arthritis. "The knee is not very good. I have arthritis. My cartilage has gone to a bad state. It is very difficult to push for eight-nine hours," Nehwal said on the House of Glory podcast.

The cabinet in the Indian women shuttlers looks barren.

Who is the next Sindhu or Saina?

It is a question that baffles Gopi. There are stars on the horizon, but they appear to be flickering only intermittently. Among them is 23-year-old Malvika Bansod, whose intelligence, nous, and power have heads turning. She was part of the Indian team that

THE 'NEXT' TAG

Malvika Bansod

The 23-year-old has defeated Sania Nehwal in 2022 and stunned Gregoria Mariska Tunjung in the previous year. The Nagpur girl created buzz after winning the silver medal at the Syed Modi International tournament three seasons ago



Aakarshi Kashyap

The Bhubaneswar girl won plaudits for her power game. She was selected to be part of the Indian team at the 2018 Asian Games, and then rose through the ranks with her impressive performances in the BWF World Championships and Asian Games

Tanvi Patri

Tanvi was introduced to badminton by her father who was working in Shanghai. She was tutored by China's renowned coach Jiang Yong Yi. The early brush with the Chinese played a significant role in shaping her fortunes



won the 2022 Thomas & Uber Cup bronze medal, and her performances at tournaments such as the Spanish Open and Singapore Open show she can compete against top players. Complementing Bansod is Aakarshi Kashyap, who has made a steady rise through the ranks through her performances in the BWF World Championships and Asian Games.

Their talent is evident. But what is missing is the consistency and fitness of Nehwal and Sindhu during their formative years. The world rankings only illustrate the growing cause for concern. As of 31 December 2024, there are only two Indian women shuttlers in the world's top 40: Sindhu (15) and Bansod (32). Japan has eight on this list.

Finding next Saina, Sindhu

Finding India's next Sindhu or Nehwal seems to be an arduous task, far more rigorous than finding the next Indian Idol. And the next

does not lie with Gopi, Prakash Padukone, or Vimal Kumar. "For a long time, Indian badminton was centred around Hyderabad and Bengaluru. A talented player from the North-East had little avenues for training. Her parents would be hesitant to send her to Gopi's academy in Hyderabad or Padukone's centre in Bengaluru," a senior sports administrator told Business Standard.

Last year, the Badminton Association of India (BAI) set up an academy in Guwahati that gave hope to young shuttlers who did not want to

leave their homes to train in Bengaluru and Hyderabad. But that's just the start. There is a long way to go to match the aura of Gopi's nursery.

Veteran coach Vijaydeep Singh Nita believes a turnaround in women's badminton is around the corner. "These young girls will need some time to improve their game and inject consistency to close out crucial games," he explains.

More importantly, having national camps across the country, and not just in academies run by Gopi or Padukone, will provide an endless supply of talent. Nita concedes that the best way to plug the gap in women's badminton is by identifying at least 10 players, hone their skills, condition them mentally, and unleash them at major tournaments.

The future of women's badminton does not lie in unearthing the next Sindhu, but in creating a pool of talent. By building a squad, India's chance of medals increases exponentially. This is a sure-shot way to compete against the sport's superpowers: China, Denmark, Indonesia, and Japan.

Gaps in coaching

Though India has witnessed an impressive rise in badminton over the past two decades with the resounding success of Saina, Sindhu, Kidambi Srikanth, Lakshya Sen, and others, thanks to the likes of Gopi and Padukone working indefatigably behind the scenes, the future also lies in unearthing more Gopis and Padukones.

Parupalli Kashyap, the 2014 Commonwealth Games gold medal winner, who has turned to coaching, bemoans the lack of quality coaches in

50 years of market wisdom, not market whispers.



50 Years of Insight

बैंक ऑफ इंडिया Bank of India BOI

Head Office : Star House, Plot C-5, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051.

Sale Notice Advertisement in respect of Transfer of Loan Exposure

Bank of India invites Expression of Interest ("EOI") from eligible ARCs/Bank/NBFCs/all India Financial Institutions ("Eligible Participants") in terms of extant guidelines of the Reserve Bank of India ("RBI") on Transfer of Loan Exposures in Simbhaoli Sugars Ltd and group, subject to applicable regulations issued by RBI/regulators for transfer of Stressed Loan Exposures through e-auction under Swiss Challenge Method on "As is Where is, As is What is and Whatever there is basis" and "without recourse basis".

The prospective investors (who are eligible) are requested to visit our website www.bankofindia.co.in under section Expression of Interest column for further details and terms & conditions.

Dated : 04.01.2025

Place: Mumbai

PTC India Limited

CIN: L40105DL1999PLC099328
Regd. Office: 2nd Floor, NBCC Tower, 15 Bhikaji Cama Place, New Delhi - 110 066
Website: Tel: 011-41659500, 41595100, 46484200. Fax: 011-41659144
E-mail: info@ptcindia.com Website: www.ptcindia.com

NOTICE OF POSTAL BALLOT

Members are hereby informed that pursuant to the provisions of Section 108 and 110 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with the Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (cumulatively "Act"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), Secretarial Standard-2 issued by Institute of Company Secretaries of India and other applicable laws and regulations, if any, including any statutory modification (s), re-enactment (s) thereof, for the time being in force, PTC India Limited (the "Company") is seeking approval from its Members for passing of Resolution as set out in the Postal Ballot Notice dated 03rd January, 2025 ("Postal Ballot Notice") by way of electronic voting ("e-voting"/remote e-voting) only.

In terms of relevant provisions of the Act and in accordance with the guidelines issued by the Ministry of Corporate Affairs, inter-alia, for conducting Postal Ballot through e-voting vide General Circular No. 14/2020 (dated 8th April 2020) and latest being Circular No. 9/2024 dated 19th September, 2024 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and circular No. SEBI/HO/CFD/CFO-POD-2/PICIR/2024/133 dated 03rd October, 2024 issued by Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), the process of sending Postal Ballot Notice along with the instructions regarding remote e-voting through email to all those Members, whose email addresses is registered with the Company or with the Depositories/Depository Participants or Registrar and Share Transfer Agent of the Company ("RTA") and whose names appear in the Register of Members/ List of Beneficial Owners as on Monday, 30th December, 2024 ("Cut-Off Date"), has completed on 03rd January, 2025.

In compliance with the requirements of the MCA Circulars, physical copy of Postal Ballot Notice along with Postal Ballot Forms and pre-paid business envelope will not be sent to the Members for this Postal Ballot and Members are required to communicate their assent or dissent through remote e-voting systems only. The Company has engaged National Securities Depository Limited ("NSDL") as e-voting agency for the purpose of providing remote e-voting services.

All the members are hereby informed that:

- The remote e-voting period commences on Saturday, 04th January, 2025 (09:00 A.M. IST) and will end on Sunday, 02nd February, 2025 (05:00 P.M. IST) for all the members, whether holding shares in physical form or in demat form. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Remote e-voting shall not be allowed beyond the said time and date. Vote once casted cannot be changed subsequently.
- A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by depositories as on Cut-Off date i.e. Monday, 30th December, 2024, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting.
- Shri Ashish Kapoor, Practicing Company Secretary (Membership No. F8002, CP No. 7504) has been appointed as Scrutinizer by the Company to scrutinize the remote e-voting in a fair and transparent manner in accordance with the applicable provisions of the Act & Rules.
- The results of the Postal Ballot/ e-voting will be declared within a period of 2 (two) working days from the conclusion of remote e-voting by the Chairman or any other person authorized by him in that behalf and displayed at the registered office of the Company. The results along with Scrutinizer's report shall be placed on the website of the Company and simultaneously be communicated to the Stock Exchanges and NSDL.

Members are requested to register their email IDs permanently by following procedure as mentioned below:

- Members holding shares in physical mode and who have not registered/ updated their e-mail ID with the Company Registrar are requested to register/update their email ID with MCS Share Transfer Agent Limited by sending duly signed request Form ISR-1/ letter at cs@ptcindia.com with relevant details, folio number and attaching a self-attested copy of PAN card.
- Members holding shares in dematerialized mode are requested to register/update their e-mail ID with the relevant Depository Participant.

For further details, kindly refer to the notice of Postal Ballot, the notice is also available on Company's website (www.ptcindia.com), Stock Exchanges' websites (www.bseindia.com and www.nsdlindia.com) and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com. Any member seeking electronic copy of this notice may write to us at cs@ptcindia.com. Further details including detailed instructions for voting are provided in the notice of postal ballot available on the website of the Company.

In case of any queries/issues related to e-voting facility, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members available at the download section of www.evoting.nsdl.com or contact Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, National Securities Depository Limited, 4th Floor, A Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel Mumbai-400013, India or at 022-48867000/ evoting@nsdl.com.

By Order of the Board of Directors
For PTC India Limited
sd/-
(Rajiv Maheshwari)
Company Secretary
M.No. FCS4998

Date: 03rd January, 2025
Place: New Delhi

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL BENCH AT NEW DELHI CA (CAA) No. 103 OF 2024

IN THE MATTER OF:
Sections 230 to 232 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016.

AND
IN THE MATTER OF:
Composite Scheme of Arrangement Amongst Lily Commercial Private Limited, DCM Shriram Industries Limited, DCM Shriram Fine Chemicals Limited and DCM Shriram International Limited and their respective shareholders and creditors.

IN THE MATTER OF:
DCM SHRIRAM INDUSTRIES LIMITED,
(CIN: L74899DL1989PLC035140),
(PAN: AAACD0204C),
A public limited company incorporated under the Companies Act, 1956 having its registered office at Kanchenjunga Building 18, Barakhamba Road, New Delhi – 110001, India.

NOTICE AND ADVERTISEMENT OF NOTICE OF THE MEETING OF THE EQUITY SHAREHOLDERS OF DCM SHRIRAM INDUSTRIES LIMITED AS PER DIRECTIONS OF THE HON'BLE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL, NEW DELHI BENCH.
Notice is hereby given that in terms of the orders dated 6th December, 2024 and 18th December, 2024, the Hon'ble National Company Law Tribunal, Bench at New Delhi ("NCLT"), ("Orders") has directed meeting to be held of the Equity Shareholders of DCM Shriram for the purpose of considering and if thought fit, approving with or without modification(s), the arrangement embodied in the Composite Scheme of Arrangement amongst Lily Commercial Private Limited ("Transferor Company"), DCM Shriram Fine Chemicals Limited ("Resultant Company 1") and DCM Shriram International Limited ("Resultant Company 2") and their respective Shareholders and Creditors ("Scheme") under Sections 230 to 232 of the Companies Act, 2013 ("2013 Act") and other applicable provisions of the 2013 Act read with Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016 ("2016 Rules").

In pursuance of the said Orders and as directed therein and in accordance with the applicable provisions of the 2013 Act, notice is hereby given that meeting of the Equity Shareholders of DCM Shriram will be held as under, at which, the Equity Shareholders are requested to attend.

Sr. No.	Class of Meeting	Day and Date of Meeting	Time (IST)	Mode
1.	Equity Shareholders	Saturday, 8th February, 2025	11:00 AM	Through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means ('OAVM')

DCMSR has on 3rd January, 2025 completed the dispatch of Notice of Meeting, copy of the Scheme, Explanatory Statement under Sections 230, 232 and Section 102 of the 2013 Act read with Rule 6 of the 2016 Rules and accompanying documents (collectively referred to as the "Particulars") to all the Equity Shareholders whose names appear in the Register of Members / List of Beneficial Owners as on 30th September, 2024. The Particulars were sent to the Equity Shareholders through courier (to those equity shareholders whose e-mail IDs are not registered with the Transferee Company) and by electronic mode by e-mail (to those equity shareholders whose e-mail IDs are registered with the Transferee Company/Depository Participants). The Particulars can be obtained free of charge (except Saturdays, Sundays and public holidays) on a requisition being so made for the same by the Equity Shareholders of DCM Shriram at the Registered Office of DCM Shriram or by sending a request along with details of shareholding by email at dsil@dcmsr.com. The Particulars including the e-voting instructions are available on DCM Shriram's website at <https://dcmsr.com/scheme-of-arrangement-2023/> and on the website of KFin Technologies Limited ("KFinTech") at www.kfintech.com.

NCLT has appointed Ms. Rashmi Chopra, Senior Advocate, as Chairperson of the said meeting and in her absence Ms. Devira Gupta Roy, Advocate as Chairperson, of the said meeting of the Equity Shareholders of DCM Shriram.

The Scheme, if approved in the aforesaid meeting, will be subject to the subsequent approval of the NCLT.

Further Notice is hereby given to the Equity Shareholders of DCM Shriram that:

- DCMSR has provided the facility of remote e-voting so as to enable the Equity Shareholders to consider and approve the Scheme. DCMSR has also provided the facility of electronic voting system at the meeting. DCMSR has engaged the services of KFinTech for facilitating remote e-voting services and e-voting at the meeting.
- In accordance with the provisions of Sections 230-232 of the 2013 Act, the Scheme shall be acted upon if a majority of persons representing three fourth in value of the Equity Shareholders of DCM Shriram, voting, agree to the Scheme. The Scheme is conditional upon the Scheme being approved by the public shareholders of DCM Shriram through e-voting in terms of Part - I (A)(10)(a) of SEBI Master Circular No. SEBI/HO/CFD/POD-2/PICIR/2023/93 dated 20th June, 2023, and the Scheme shall be acted upon only if votes cast by the public shareholders of DCM Shriram in favour of the proposal are more than the number of votes cast by the public shareholders (of DCM Shriram) against it.
- The cut-off date for determining the eligibility of the Equity Shareholders for voting is 1st February, 2025. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled for voting. Persons who are not Equity Shareholders of DCM Shriram as on the cut-off date should treat this Notice for information purposes only.
- Voting through remote e-voting by the Equity Shareholders will commence on 5th February, 2025 at 9.00 AM (IST) and shall end on 7th February, 2025 at 5.00 PM (IST).
- The Equity Shareholders can opt for only one mode for voting i.e., either by remote e-voting or e-voting at the meeting. Equity shareholders who have cast their votes through remote e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.
- Ms. Manmeet Kaur Sareen, Advocate has been appointed as the Scrutinizer to conduct the remote e-voting process and the e-voting at the meeting in a fair and transparent manner.
- In case of any query/grievance in relation to the voting by remote e-voting or e-voting, the same may be addressed to Mr. G S Nair, Sr. Vice President of DCM Shriram at Kanchenjunga Building 18, Barakhamba Road, New Delhi-110001 or through email at dsil@dcmsr.com or to KFinTech at enw@kfintech.com or call on 011-43745000 or 1800 309 4001 respectively.
- The results, together with the Scrutinizer's Report, will be announced within two working days from the conclusion of meeting and will be placed on the website of DCM Shriram at <https://dcmsr.com/scheme-of-arrangement-2023/> and on the website of KFinTech at www.kfintech.com and shall be communicated to BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited where the shares of DCM Shriram are listed.
- If so desired, the Equity Shareholder may obtain a physical copy of the Notice, Scheme and the Statement under Sections 230 and 232 read with Section 102 and other applicable provisions of the 2013 Act and Rule 6 of the 2016 Rules etc. free of charge. A written request in this regard along with details of your shareholding in DCM Shriram, may be addressed to the Company Secretary at dsil@dcmsr.com.

Place: New Delhi
Date: 3rd January, 2025

DCM SHRIRAM

Sd/-
Rashmi Chopra
Chairperson appointed for the Meeting

2 कंपनी समाप्ति

संक्षेप में

आरईसी का कर्ज वितरण 18 प्रतिशत बढ़ा

सार्वजनिक क्षेत्र की आरईसी लिमिटेड का कुल कर्ज वितरण चालू वित्त वर्ष की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में लगभग 18 प्रतिशत बढ़कर 54,692 करोड़ रुपये रहा। आरईसी ने शुरुआत को एक बयान में कहा कि दिसंबर तिमाही के लिए नवीकरणीय ऊर्जा ऋण वितरण सालाना आधार पर 58.09 प्रतिशत बढ़कर 6,314 करोड़ रुपये रहा। बयान के अनुसार, तिमाही के दौरान आरईसी ने 54,692 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 17.98 प्रतिशत अधिक है। चालू वित्त वर्ष की नौ महीने (अप्रैल-दिसंबर) की अवधि के लिए आरईसी ने कुल 1,45,647 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया, जो पिछले वित्त वर्ष (2023-24) की समान अवधि में वितरित 1,22,089 करोड़ रुपये की तुलना में 19.30 प्रतिशत अधिक है। इसमें से नवीकरणीय ऊर्जा ऋण कुल मिलाकर 17,612 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 78.68 प्रतिशत अधिक है।

भाषा

टाटा एलेक्सी करेगी क्वालकॉम संग गठजोड़

डिजाइन आधारित प्रौद्योगिकी सेवाएं मुहैया कराने वाली कंपनी टाटा एलेक्सी ने शुरुआत को कहा कि वह क्वालकॉम टेक्नोलॉजीज के साथ काम करने की योजना बना रही है। इस गठजोड़ के तहत क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन ऑटोमोटिव मंच का लाभ उठाते हुए अगली पीढ़ी के परिवहन के लिए सांप्रति-डिफाइंड व्हीलर (एसडीवी) को अपनाने में तेजी लाई जाएगी। कंपनी ने कहा कि इसके तहत उसका लक्ष्य एसडीवी विकास प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए स्नैपड्रैगन डिजिटल चेसिस चतुर्भुज अल-स्टैटम-ऑन-चिप का उपयोग करना है।

भाषा

कोटक बैंक के सीओओ मिलिंद नगनूर का इस्तीफा

कोटक महिंद्रा बैंक ने शुरुआत को कहा कि बैंक में मौजूदा समय में मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) और मुख्य तकनीकी अधिकारी (सीटीओ) के तौर पर काम कर रहे मिलिंद नगनूर ने निजी कारणों की वजह से इस्तीफा दे दिया है। उनका इस्तीफा 15 फरवरी, 2025 से प्रभावी माना जाएगा। अपने इस्तीफे में नगनूर ने कहा है कि उन्होंने पारिवारिक सदस्यों की देखभाल के लिए अमेरिका में बसने की योजना बनाई है।

बीएस

इलेक्ट्रॉनिकी उत्पादन के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के लिए बन रही रणनीति

इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में बढ़ेगी पैठ

सुरजीत दास गुप्ता
नई दिल्ली, 3 जनवरी

सरकार ने साल 2030 तक देश में 500 अरब डॉलर तक इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं के उत्पादन शुरू करने के लिए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वावधान में विस्तृत रणनीति रिपोर्ट तैयार करने के लिए सेलुलर ऐंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (आईसीईए) और कंसल्टेंसी फर्म बेन ऐंड कंपनी से सहयोग लिया है।

मामले से जुड़े स्रोतों ने बताया कि यह रिपोर्ट अगले कुछ दिनों में संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव जारी कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण की घोषणा कुछ महीने पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है।

इलेक्ट्रॉनिक्स की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला (जीवीसी) में भारत की भागीदारी सशक्त बनाने के लिए पिछले साल जुलाई में नीति आयोग ने अध्ययन किया था। इसमें यह कहा गया था कि यह महत्वाकांक्षी सपना साकार हो सकता है और इसमें कम से कम 200 अरब डॉलर निर्यात से आयेगे, जहां तैयार वस्तु और कलपुर्जे की प्रमुख भूमिका रहेगी। अध्ययन में कहा गया था कि इससे 55 से 60 लाख नौकरियां पैदा होने की भी संभावना है। अध्ययन में लक्ष्य को हासिल करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में नीतिगत हस्तक्षेप करने का भी सुझाव दिया गया है। अब मंत्रालय न केवल भारतीय बाजार के लिए बल्कि दुनिया भर में निर्यात के लिए पुर्जों की वृद्धि आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए 40 हजार करोड़



रुपये से अधिक के बजट के साथ इलेक्ट्रॉनिकी पुर्जों के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को एक साथ लाने की तैयारी में है।

लक्ष्य हासिल करने के लिए की गई खास चर्चा के आधार पर आने वाली रिपोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स के विभिन्न क्षेत्र के लिए लक्ष्य तय किए जाने की उम्मीद है, जिसमें मोबाइल डिवाइस, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहन इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सर्वर, हियरेबलस, वेयरबलस और चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिकी शामिल हैं। चर्चा का उद्देश्य साल 2030 तक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी को 6 से 7 फीसदी तक करने का है।

उदाहरण के लिए, आईसीईए ने चर्चा के दौरान कहा था कि वह भारत में मोबाइल फोन के उत्पादन को मौजूदा 57 अरब डॉलर से बढ़ाकर साल 2030 तक 120 अरब डॉलर तक ले जा सकता है।

इससे वैश्विक मोबाइल फोन उत्पादन में भारत की अभी जो 12 फीसदी हिस्सेदारी है वह भी बढ़कर 16 से 17 फीसदी हो जाएगा। मगर अन्य क्षेत्रों में भारत काफी पीछे है और उसे तेजी से आगे बढ़ाना होगा। उदाहरण के लिए, आईटी रिपोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स के विभिन्न क्षेत्र के लिए लक्ष्य तय किए जाने की उम्मीद है, जिसमें मोबाइल डिवाइस, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहन इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सर्वर, हियरेबलस, वेयरबलस और चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिकी शामिल हैं। चर्चा का उद्देश्य साल 2030 तक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी को 6 से 7 फीसदी तक करने का है।

उदाहरण के लिए, आईसीईए ने चर्चा के दौरान कहा था कि वह भारत में मोबाइल फोन के उत्पादन को मौजूदा 57 अरब डॉलर से बढ़ाकर साल 2030 तक 120 अरब डॉलर तक ले जा सकता है।

सरकार की कवायद

■ साल 2030 तक भारत को 500 अरब डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन मूल्य तक पहुंचाने का लक्ष्य

■ विस्तृत रणनीति रिपोर्ट तैयार करने के लिए सरकार ने आईसीईए और कंसल्टेंसी फर्म बेन ऐंड कंपनी को अपने साथ जोड़ा है


■ अगले कुछ दिनों में केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव इस रिपोर्ट को जारी कर सकते हैं

हिस्सेदारी 1 फीसदी से भी कम है। इलेक्ट्रॉनिक्स जीवीसी में उसकी हिस्सेदारी थोड़ी बेहतर है और यह 2 फीसदी है। दूसरी बात है कि इसमें कोई शक नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात बढ़ा है और यह चालू वित्त वर्ष 2025 के अप्रैल से नवंबर तक 22.5 अरब डॉलर के आंकड़े को छू गया है, जो बीते वित्त वर्ष 2024 की समान अवधि के मुकाबले 28 फीसदी का इजाफा है। यह अब वित्त वर्ष 2025 के पहले आठ महीनों में निर्यात होने वाली तीसरी सबसे बड़ी वस्तु है, जबकि वित्त वर्ष 2024 की समान अवधि में यह छठे स्थान पर थी। लेकिन, इसकी तुलना में इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में भारत के प्रतिद्वंद्वी काफी आगे हैं। मूल्य के लिहाज से चीन ने हमसे 37 गुना अधिक निर्यात किया है, जबकि वियतनाम ने 5.4 गुना, मलेशिया ने 4.3 गुना और यहां तक कि मंगोलिया ने भी भारत के मुकाबले इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं का 3.4 गुना ज्यादा निर्यात किया है।

चालू तिमाही में सुधरेंगे पेटीएम के हालात

अजिंक्य कावले
मुंबई, 3 जनवरी

दो ब्रोकरेज फर्मों द्वारा जताए गए अनुमान में कहा गया है कि पेटीएम ब्रांड का परिचालन करने वाली वन97 कम्युनिकेशंस वित्त वर्ष 2025 की चालू यानी चौथी तिमाही में ईसांप (कर्मचारी शेरय स्वामित्व योजना) खर्च से पहले एडिटा स्तर पर भरपाई की स्थिति में पहुंच जाएगा। ब्रोकरेज फर्म ग्लोबल कैपिटल मार्केट्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उसे वित्त वर्ष



2026 की चौथी तिमाही में शुद्ध मुनाफा स्तर पर कंपनी के भरपाई की स्थिति में पहुंचने का अनुमान है।

कंपनी का शेरय शुरुआत को बीएसई पर महज 0.03 फीसदी की बढ़त के साथ 982.30 रुपये पर बंद हुआ। कंपनी को राजस्व में वित्तीय सेवाओं के सुधरते योगदान से मदद मिलने की संभावना है। वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में नेटोजा की इस कंपनी का समेकित शुद्ध लाभ 928.3 करोड़ रुपये रहा और उसे अपने मूवी टिकटिंग एवं इवेंट व्यवसाय जोड़ते दो हाथों बेच दिए जाने से बड़ी मदद मिली।

पेटीएम ने वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में 549.6 करोड़ रुपये का समेकित नुकसान दर्ज किया था, जो वित्त वर्ष 2023 की चौथी तिमाही में 168.4 करोड़ रुपये था।

आरबीआई द्वारा कंपनी की सहायक इकाई पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर पाबंदी लगाए जाने के बाद उसका नुकसान बढ़ गया था।

इस साझेदारी का प्रमुख आकर्षण अभी होने वाली एसपीएफ स्टार्टअप बैठक में देखने को मिलेगी, जो नेशनल स्टार्टअप वीक सेलिब्रेशन के हिस्से के रूप में 15 और 16 जनवरी को भारत मंडपम में होने वाली है। यह कार्यक्रम डीपीआईआईटी और एसपीएफ सदस्यों के बीच सहयोग बढ़ाने, शीर्ष नवाचारों को दिखाने और नई पहलों की घोषणा के लिए एक मंच के तौर पर काम करेगा। इसके अलावा, एसपीएफ वैश्विक निवेशकों को भारत के स्टार्टअप परिवेश से जोड़ने के लिए खासतौर पर तैयार किए गए कार्यक्रमों के लिए डीपीआईआईटी से हाथ मिलाएगा।

स्टार्टअप इंडिया के संयुक्त चिन्तन संजीव सिंह ने कहा, 'एसपीएफ के साथ किया गया यह रणनीतिक करार अनुकूल माहौल बनाने का एक प्रमुख उद्योग संगठन है। इस रणनीतिक करार का उद्देश्य भारत को नवाचार और उद्यमिता के वैश्विक केंद्र के तौर पर स्थापित करना है।

एस साझेदारी का प्रमुख आकर्षण अभी होने वाली एसपीएफ स्टार्टअप बैठक में देखने को मिलेगी, जो नेशनल स्टार्टअप वीक सेलिब्रेशन के हिस्से के रूप में 15 और 16 जनवरी को भारत मंडपम में होने वाली है। यह कार्यक्रम डीपीआईआईटी और एसपीएफ सदस्यों के बीच सहयोग बढ़ाने, शीर्ष नवाचारों को दिखाने और नई पहलों की घोषणा के लिए एक मंच के तौर पर काम करेगा। इसके अलावा, एसपीएफ वैश्विक निवेशकों को भारत के स्टार्टअप परिवेश से जोड़ने के लिए खासतौर पर तैयार किए गए कार्यक्रमों के लिए डीपीआईआईटी से हाथ मिलाएगा।

स्टार्टअप इंडिया के संयुक्त चिन्तन संजीव सिंह ने कहा, 'एसपीएफ के साथ किया गया यह रणनीतिक करार अनुकूल माहौल बनाने का एक प्रमुख उद्योग संगठन है। इस रणनीतिक करार का उद्देश्य भारत को नवाचार और उद्यमिता के वैश्विक केंद्र के तौर पर स्थापित करना है।

एस साझेदारी का प्रमुख आकर्षण अभी होने वाली एसपीएफ स्टार्टअप बैठक में देखने को मिलेगी, जो नेशनल स्टार्टअप वीक सेलिब्रेशन के हिस्से के रूप में 15 और 16 जनवरी को भारत मंडपम में होने वाली है। यह कार्यक्रम डीपीआईआईटी और एसपीएफ सदस्यों के बीच सहयोग बढ़ाने, शीर्ष नवाचारों को दिखाने और नई पहलों की घोषणा के लिए एक मंच के तौर पर काम करेगा। इसके अलावा, एसपीएफ वैश्विक निवेशकों को भारत के स्टार्टअप परिवेश से जोड़ने के लिए खासतौर पर तैयार किए गए कार्यक्रमों के लिए डीपीआईआईटी से हाथ मिलाएगा।

स्टार्टअप इंडिया के संयुक्त चिन्तन संजीव सिंह ने कहा, 'एसपीएफ के साथ किया गया यह रणनीतिक करार अनुकूल माहौल बनाने का एक प्रमुख उद्योग संगठन है। इस रणनीतिक करार का उद्देश्य भारत को नवाचार और उद्यमिता के वैश्विक केंद्र के तौर पर स्थापित करना है।

भारत को वैश्विक नवाचार केंद्र बनाने की कवायद तेज

पौरजादा अबरार
बंगलूरु, 3 जनवरी

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत आने वाले उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने स्टार्टअप पॉलिसी फोरम (एसपीएफ) के साथ साझेदारी की है। एसपीएफ भारत के नए जमाने की कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक प्रमुख उद्योग संगठन है।

एस साझेदारी का प्रमुख आकर्षण अभी होने वाली एसपीएफ स्टार्टअप बैठक में देखने को मिलेगी, जो नेशनल स्टार्टअप वीक सेलिब्रेशन के हिस्से के रूप में 15 और 16 जनवरी को भारत मंडपम में होने वाली है। यह कार्यक्रम डीपीआईआईटी और एसपीएफ सदस्यों के बीच सहयोग बढ़ाने, शीर्ष नवाचारों को दिखाने और नई पहलों की घोषणा के लिए एक मंच के तौर पर काम करेगा। इसके अलावा, एसपीएफ वैश्विक निवेशकों को भारत के स्टार्टअप परिवेश से जोड़ने के लिए खासतौर पर तैयार किए गए कार्यक्रमों के लिए डीपीआईआईटी से हाथ मिलाएगा।

स्टार्टअप इंडिया के संयुक्त चिन्तन संजीव सिंह ने कहा, 'एसपीएफ के साथ किया गया यह रणनीतिक करार अनुकूल माहौल बनाने का एक प्रमुख उद्योग संगठन है। इस रणनीतिक करार का उद्देश्य भारत को नवाचार और उद्यमिता के वैश्विक केंद्र के तौर पर स्थापित करना है।

एस साझेदारी का प्रमुख आकर्षण अभी होने वाली एसपीएफ स्टार्टअप बैठक में देखने को मिलेगी, जो नेशनल स्टार्टअप वीक सेलिब्रेशन के हिस्से के रूप में 15 और 16 जनवरी को भारत मंडपम में होने वाली है। यह कार्यक्रम डीपीआईआईटी और एसपीएफ सदस्यों के बीच सहयोग बढ़ाने, शीर्ष नवाचारों को दिखाने और नई पहलों की घोषणा के लिए एक मंच के तौर पर काम करेगा। इसके अलावा, एसपीएफ वैश्विक निवेशकों को भारत के स्टार्टअप परिवेश से जोड़ने के लिए खासतौर पर तैयार किए गए कार्यक्रमों के लिए डीपीआईआईटी से हाथ मिलाएगा।

स्टार्टअप इंडिया के संयुक्त चिन्तन संजीव सिंह ने कहा, 'एसपीएफ के साथ किया गया यह रणनीतिक करार अनुकूल माहौल बनाने का एक प्रमुख उद्योग संगठन है। इस रणनीतिक करार का उद्देश्य भारत को नवाचार और उद्यमिता के वैश्विक केंद्र के तौर पर स्थापित करना है।

बीटूबी भुगतान के लिए मार्च तक आएगा भारत बिलपे

अजिंक्य कावले
मुंबई, 3 जनवरी

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) का बिग एप्रोगेशन प्लेटफॉर्म भारत कनेक्ट इस साल मार्च तक कारोबार के लिए भारत बिलपे पेश कर सकता है। मामले की जानकारी रखने वाले दो स्रोतों ने यह जानकारी दी है।

भारत कनेक्ट को पहले भारत बिलपे के नाम से जाना जाता था, जो कंपनियों को एनपीसीआई द्वारा थर्ड पार्टी ऐप्लिकेशन प्रदाताओं (टीपीएपी) को दिए जाने वाले समान मॉडल की तरह ही बिजनेस टू बिजनेस (बीटूबी) भुगतान के लिए अधिकृत करेगा। टीपीएपी उपयोगकर्ताओं को भारत के वास्तविक भुगतान प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस

तीसरी तिमाही में डाबर का राजस्व रहेगा सपाट

अक्षरा श्रीवास्तव
नई दिल्ली, 3 जनवरी

रोजमर्रा के सामान (एफएमसीजी) बनाने वाली देसी कंपनी डाबर इंडिया की चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही (तीसरी तिमाही) में राजस्व वृद्धि एक अंक में होगी। कंपनी ने शुरुआत को यह जानकारी दी है। हाजमोला कैडी और रियल फ्रूट जूस बनाने वाली कंपनी ने कहा है कि तीसरी तिमाही में ग्रामीण खपत लचीली बनी रही और शहरी इलाकों के मुकाबले तेजी से बढ़ी।

शहरों के मुकाबले ग्रामीण मांग दमदार

■ तीसरी तिमाही में ग्रामीण खपत लचीली बनी रही और शहरी इलाकों के मुकाबले तेजी से बढ़ी

■ सामान्य व्यापार में दबाव रहा मगर ई-कॉमर्स और विचक कॉमर्स जैसे वैकल्पिक चैनल में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई

संभार के साथ (एफएमसीजी) बनाने वाली देसी कंपनी डाबर इंडिया की चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही (तीसरी तिमाही) में राजस्व वृद्धि एक अंक में होगी। कंपनी ने शुरुआत को यह जानकारी दी है। हाजमोला कैडी और रियल फ्रूट जूस बनाने वाली कंपनी ने कहा है कि तीसरी तिमाही में ग्रामीण खपत लचीली बनी रही और शहरी इलाकों के मुकाबले तेजी से बढ़ी।

संभार के साथ (एफएमसीजी) बनाने वाली देसी कंपनी डाबर इंडिया की चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही (तीसरी तिमाही) में राजस्व वृद्धि एक अंक में होगी। कंपनी ने शुरुआत को यह जानकारी दी है। हाजमोला कैडी और रियल फ्रूट जूस बनाने वाली कंपनी ने कहा है कि तीसरी तिमाही में ग्रामीण खपत लचीली बनी रही और शहरी इलाकों के मुकाबले तेजी से बढ़ी।

संभार के साथ (एफएमसीजी) बनाने वाली देसी कंपनी डाबर इंडिया की चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही (तीसरी तिमाही) में राजस्व वृद्धि एक अंक में होगी। कंपनी ने शुरुआत को यह जानकारी दी है। हाजमोला कैडी और रियल फ्रूट जूस बनाने वाली कंपनी ने कहा है कि तीसरी तिमाही में ग्रामीण खपत लचीली बनी रही और शहरी इलाकों के मुकाबले तेजी से बढ़ी।

संभार के साथ (एफएमसीजी) बनाने वाली देसी कंपनी डाबर इंडिया की चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही (तीसरी तिमाही) में राजस्व वृद्धि एक अंक में होगी। कंपनी ने शुरुआत को यह जानकारी दी है। हाजमोला कैडी और रियल फ्रूट जूस बनाने वाली कंपनी ने कहा है कि तीसरी तिमाही में ग्रामीण खपत लचीली बनी रही और शहरी इलाकों के मुकाबले तेजी से बढ़ी।

संभार के साथ (एफएमसीजी) बनाने वाली देसी कंपनी डाबर इंडिया की चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही (तीसरी तिमाही) में राजस्व वृद्धि एक अंक में होगी। कंपनी ने शुरुआत को यह जानकारी दी है। हाजमोला कैडी और रियल फ्रूट जूस बनाने वाली कंपनी ने कहा है कि तीसरी तिमाही में ग्रामीण खपत लचीली बनी रही और शहरी इलाकों के मुकाबले तेजी से बढ़ी।

संभार के साथ (एफएमसीजी) बनाने वाली देसी कंपनी डाबर इंडिया की चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही (तीसरी तिमाही) में राजस्व वृद्धि एक अंक में होगी। कंपनी ने शुरुआत को यह जानकारी दी है। हाजमोला कैडी और रियल फ्रूट जूस बनाने वाली कंपनी ने कहा है कि तीसरी तिमाही में ग्रामीण खपत लचीली बनी रही और शहरी इलाकों के मुकाबले तेजी से बढ़ी।

संभार के साथ (एफएमसीजी) बनाने वाली देसी कंपनी डाबर इंडिया की चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही (तीसरी तिमाही) में राजस्व वृद्धि एक अंक में होगी। कंपनी ने शुरुआत को यह जानकारी दी है। हाजमोला कैडी और रियल फ्रूट जूस बनाने वाली कंपनी ने कहा है कि तीसरी तिमाही में ग्रामीण खपत लचीली बनी रही और शहरी इलाकों के मुकाबले तेजी से बढ़ी।

संभार के साथ (एफएमसीजी) बनाने वाली देसी कंपनी डाबर इंडिया की चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही (तीसरी तिमाही) में राजस्व वृद्धि एक अंक में होगी। कंपनी ने शुरुआत को यह जानकारी दी है। हाजमोला कैडी और रियल फ्रूट जूस बनाने वाली कंपनी ने कहा है कि तीसरी तिमाही में ग्रामीण खपत लचीली बनी रही और शहरी इलाकों के मुकाबले तेजी से बढ़ी।

संभार के साथ (एफएमसीजी) बनाने वाली देसी कंपनी डाबर इंडिया की चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही (तीसरी तिमाही) में राजस्व वृद्धि एक अंक में होगी। कंपनी ने शुरुआत को यह जानकारी दी है। हाजमोला कैडी और रियल फ्रूट जूस बनाने वाली कंपनी ने कहा है कि तीसरी तिमाही में ग्रामीण खपत लचीली बनी रही और शहरी इलाकों के मुकाबले तेजी से बढ़ी।

संभार के साथ (एफएमसीजी) बनाने वाली देसी कंपनी डाबर इंडिया की चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही (तीसरी तिमाही) में राजस्व वृद्धि एक अंक में होगी। कंपनी ने शुरुआत को यह जानकारी दी है। हाजमोला कैडी और रियल फ्रूट जूस बनाने वाली कंपनी ने कहा है कि तीसरी तिमाही में ग्रामीण खपत लचीली बनी रही और शहरी इलाकों के मुकाबले तेजी से बढ़ी।

संभार के साथ (एफएमसीजी) बनाने वाली देसी कंपनी डाबर इंडिया की चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही (तीसरी तिमाही) में राजस्व वृद्धि एक अंक में होगी। कंपनी ने शुरुआत को यह जानकारी दी है। हाजमोला कैडी और रियल फ्रूट जूस बनाने वाली कंपनी ने कहा है कि तीसरी तिमाही में ग्रामीण खपत लचीली बनी रही और शहरी इलाकों के मुकाबले तेजी से बढ़ी।